



शीतकाल में ऊर्जा की बचत संबंधी युक्तियाँ

तस्मानिया की ठंडी जलवायु, विशेष रूप से सर्दियों के महीनों में, बिजली के बिलों पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है। घर पर इन आसान ऊर्जा बचत की युक्तियों को आजमाएं।

Hindi



ताप बनाए रखें

केवल उन्हीं कमरों को गर्म करें जिनका आप उपयोग कर रहे हैं और अपने थर्मोस्टेट को 18°C-21°C के बीच सेट कर दें।



गर्मी के लिए पर्दे

गर्मी को अंदर ही बनाए रखने के लिए सूरज ढलने से पहले अपने पर्दे ढाँक दें।



हवा को रोकें

मौसमी सील टेप या ड्राउट स्टॉपर्स (draught stoppers) से खिड़कियों और दरवाज़ों के नीचे के रिक्त स्थान को सील कर दें।



शॉवर में अत्यधिक समय तक न नहाएं

गर्म पानी बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग करता है। अपने शावर के समय को 5 मिनट से कम रखें।



परतों में कपड़े पहनें

अपने हीटर को चालू करने से पहले, जम्पर और मोटे मोज़े पहन कर अपने आप को गर्म रखें।



ऊर्जा बचाने की और अधिक युक्तियों के लिए QR Code (क्यूआर कोड) स्कैन करें



बिजली बिल का भुगतान करने के लिए सहायता चाहिए?

आपके द्वारा प्राप्त किया गया बिल यदि आपकी अपेक्षा से अधिक है, तो Aurora Energy भुगतान योजनाओं, ऊर्जा संबंधी सलाह और वित्तीय कठिनाई संबंधी सहायता देकर आपकी मदद कर सकती है।



भुगतान देय अवधि को बढ़ाना

आप अपने बिल की देय तिथि को दो सप्ताह तक बढ़ा सकते/ती हैं।



भुगतान योजनाएं

यदि आपको कुछ अतिरिक्त समय की आवश्यकता है, तो हमारे पास कई प्रकार के भुगतान योजना विकल्प उपलब्ध हैं।



वार्षिक बिजली रियायत

यदि आपके पास पेंशनभोगी रियायत कार्ड, हेल्थ केयर कार्ड, या इमीकार्ड (ImmiCard) है, तो आप रियायती छूट के पात्र हो सकते हैं।



YES कार्यक्रम

वित्तीय कठिनाईयों में ग्राहकों की मदद करने के लिए हमारा YES (योर एनर्जी सुपोर्ट) प्रोग्राम उपलब्ध है ताकि वे अपने बिजली बिलों का भुगतान कर सकें।



aurora+ से अपनी ऊर्जा सेवा पर नज़र रखें

aurora+ आपको अपने फोन, टैबलेट या कंप्यूटर पर अपने बिजली के उपयोग को देखने, साथ-साथ में ही भुगतान करते रहने, और अपने खाते की शेष राशि पर नज़र रखने के सक्षम बनाता है।



कृपया हमें 1300 132 003 पर फ़ोन करें
या auroraenergy.com.au पर जाएं
यदि आपको दुभाषिए की आवश्यकता है, तो अनुवाद और
दुभाषिया सेवा (टिस) को 13 14 50 पर संपर्क करें

